

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 20 जून 2015—ज्येष्ठ 30, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जून 2015

क्र. 84 (10)वि.निर्वा.-चार-2015-उप चुनाव-333.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 227 विधान सभा उप चुनाव की मतगणना के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति बाबत क्रमांक 100-MP-LA-2015-(Bye), दिनांक 17 जून 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2015—27 ज्येष्ठ, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं 100-म.प्र.-वि.स.-1-2015(उप-चुनाव).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उनके 227-गरोठ विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव में मतों की गणना के कार्य के निष्पादन में मदद करने के लिए, विद्यमान सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
227-गरोठ	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतामड 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ़

ये नियुक्तियां मतों की गणना के पूरे होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जाएंगी.

आदेश से,  
हस्ता./-  
( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 17th June, 2015—27 Jyaistha, 1937 (Saka)

**NOTIFICATION**

No. 100-MP-LA-1-2015(Bye).—In exercise of powers conferred by Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoints each of the officers specified in Column (2) of the Table given below as Assistant Returning Officers in addition to existing Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Assembly Constituency of the State of Madhya Pradesh as specified in Column (1) of the said Table in the performance of their functions with respect to the counting of votes, in the Bye Election of 227-Garoth A.C. of Madhya Pradesh State:—

**TABLE**

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer for Counting (2)
227-Garoth	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Sitamau. 2. Sub Divisional Officer (Revenue), Malhargarh

These appointments will cease to be effective after completion of counting of votes.

By order,  
Sd./-

(NARENDRA N. BUTOLIA)  
*Secretary,*  
*Election Commission of India.*